# **Oracle Credit Limited**

(CIN: L65910DL1991PLC043281)
Regd. Office: P-7, Green Park Extension, New Delhi-110016
E mail: oracle\_credit@yahoo.co.in, info@oraclecredit.co.in
Website: www.oraclecredit.co.in
Tel: 011-26167775



Ref. No.: OCL/2020-21/279

To Date: 13-February-21

**Listing Operations** 

BSE Ltd.

Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street, Mumbai- 400001

Scrip Code: 539598

Sub: Newspaper publication of Unaudited Financial Results for the quarter and Nine months ended December 31, 2020.

Dear Sir/ Madam,

Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith a copy of the Newspaper Advertisement of Unaudited Financial Results for the quarter and nine months ended December 31, 2020, published in Financial Express (English edition) and Jansatta (Hindi edition) on 12-February-21.

Kindly take the same on your records.

Thanking You,

Yours faithfully, For **Oracle Credit Limited** 

Vineeta Gautam Company Secretary & Compliance Officer

Encl: As Above

### जेनोमिक वैली बायोटेक लिमिटेड

पंजीकृत कार्या: 4 कि.मी. स्टोन, बेरी छत्रा रोड, ग्राम खेरका मसलमान. पी.ओ. टंडाहेरी. तहसील बहादुरगढ़, जिला झज्जर, हरियाणा-124507 CIN: L01122HR1994PLC033029; टेली: +91-9811341542

ईमेलः genomicvalley@gmail.com; http://www.genomicvalley.com पर मिलें 31 दिसम्बर, 2020 को समाप्त तिमाही और नौमाही के लिए स्टैंडएलॉन अनकेक्षित वित्तीय परिणामों का विवरण

क्र. स	विवरण	समाप्त 3 महीने 31 दिसम्बर,	समाप्त पूर्व 3 माह 30 सितम्बर,	पूर्व वर्ष में समाप्त तत्स्थानीय 3 महीने 31 दिसम्बर,	समाप्त पूर्व वर्ष 31 मार्च,
		20 अनंकेक्षित	20 अनंकेक्षित	19 अनंकेक्षित	20 अंकेक्षित
1	परिचालनों से कुल आय	916,620	669,690	1,891,371	8,606,499
2	अवधि के लिए शुद्ध लाम/(हानि) (कर, असाधारण एवं/अथवा विशिष्ट मदों से पूर्व)	-136,263	-263,696	927,269	2,057,311
3	कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण एवं/अथवा विशिष्ट मदों के बाद)	-136,263	-263,696	927,269	2,057,311
4	कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाम/(हानि) (असाधारण एवं/अथवा विशिष्ट मदों के बाद)	-136,263	-263,696	927,269	2,859,927
5	अवधि के लिए कुल व्यापक आय (अवधि के लिए (कर के बाद) लाभ/(हानि) तथा अन्य व्यापक आय (कर के बाद) शामिल	-136,263	-263,696	927,269	2,859,927
6	इक्विटी शेयर पूंजी (30,545,000 इक्विटी शेयर रू. 10/— प्रति)	30,545,000	30,545,000	30,545,000	30,545,000
7	आरक्षित (पुनर्मुल्यांकन आरक्षतों को छोडकर) जैसा कि पूर्व वर्ष के तुलन पत्र में दर्शाई गई है	-	-	-	19,925,159
8	प्रति शेयर आय				
	क) मूल	-0.04	-0.09	0.30	0.94
	ख) तरल	-0.04	-0.09	0.30	0.94
टिप	गणीः	•		•	
4	विक्रीय परिणामी के जमनेक सम्बंध की आँ।	देव किंग्सिके	गरकारे राज	जागीका की उ	ार्ट स्था ४४

- वित्तीय परिणामों के उपरोक्त सारांश की ऑडिट किमटी के सदस्यों द्वारा समीक्षा की गई तथा 11 फरवरी, 2021 को आयोजित बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किये गये।
- उपरोक्त सेबी (सूचीयन तथा अन्य उदघाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज में दाखिल तिमाही तथा वार्षिक वित्तीय परिणामों के विस्तत प्रारूप का सार है तिमाही तथा तिथि तक वर्ष के वित्तीय परिणामें का सम्पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाईट (www.bseindia.com) तथा कम्पनी की वेबसाईट (www.genomicvalley.com) पर उपलब्ध है।

तिथिः 11 फरवरी, 2021

आकृष्ट की जाती है।

तिथि: 10.02.2021

1. परिचालनों से कुल आय

असाधारण मदों के बाद)

स्थानः नई दिल्ली

तिथि: 10.02.2021

अन्य व्यापक आय (कर के बाद से शामिल)

आरक्षित (पुनर्मूल्यांकन आरक्षित के अतिरिक्त)

www.hotelclarks.com पर भी उपलब्ध है।

आय प्रति शेयर (रु. 10/- प्रति का)

से पूर्व)

2. अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (कर, विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मत

3. कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (विशिष्ट एवं/अथव

कर से बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (विशिष्ट एवं अथर

अविध हेतु कुल व्यापक आय (अविध हेतु (कर के बाद) लाभ/ (हानि) एवं

स्थानः नोएडा

ऋणधारक/गारन्टरो

मै एम संस जेम्स एन ज्वेलरी पा लि

अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा कर लिया है।

जेनोमिक वैली बायोटेक लि. के लिये तथा उनकी ओर र हस्ता /-

योगेश अग्रवाल (प्रबंध निदेशक) डीआईएनः 01165288

रिलायन्स एसेट रीकन्स्ट्रक्शन क. लि.

शाखा कार्यालयछ ए-13/1, 6ठा तल, सिनर्जी टॉवर, सेक्टर-62, नोएडा (उ.प्र.) 201309

श्री राजीव जैन तथा श्री संजीव कुमार जैन के स्वामित्व में तथा उनके द्वारा गिरवी रखी 14.8.2020 को रु. 395717011.8

साथ 598 वर्ग यार्ड्स के एरिया में शामिल भूमि तथा चार मंजिला आवासीय भवन का सत्तरह हजार ग्यारह एवं पैसे पचार

31.12.2020 30.09.2020 31.12.2019

274.44

(830.70

(830.70

(621.63)

(601.71)

अनंकेक्षित )

3379.3

805.04

629.41

(अनंकेक्षित) (अनंकेक्षित)

1446.66

136.93

136.93

102.47

121.50

540.00

1. उपरोक्त परिणामों की ऑडिट कमिटी द्वारा समीक्षा की गई तथा 10 फरवरी, 2021 को आयोजित उनकी बैठक में कम्पनी के निदेशक मंडल

. उपरोक्त विवरण सेबी (सचीयन तथा अन्य उदघाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज के पास दाखिल की गई 31 दिसम्बर, 2020 को समाप्त तिमाही तथा नौ महीने के वित्तीय परिणामों के सम्पर्ण विवरण प्रारूप का सार है। तिमाही

एवं नौ महीने वित्तीय परिणामों का संपूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाईट www.bseindia.com तथा कम्पनी की वेबसाईट

मैग्नम वेन्चर्स लिमिटेड

सीआईएन : L21093DL1980PLC010492

पंजीकृत कार्यालय : कार्यालय सं. 205, दूसरी मंजिल, भवन सं. 4326, गली नं. 3,

अंसारी रोड, दरिया गंज, दिल्ली-110002

द्वारा अनुमोदित किये गये उसे सांविधिक लेखा-परीक्षकों द्वारा सीमित समीक्षा के अधीन रखा गया है।

हस्ता./ (प्राधिकृत अधिकारी

रिलायन्स एसेट रीकन्स्टक्शन कम्पनी लिमिटेड

(आय प्रतिशेयर को छोड़कर रु. लाखों में)

समाप्त नौ महीने

31.12.2020 31.12.2019

अनंकेक्षित :

6946.9

109.08

153.24

यू.पी. होटल्स लिमिटेड के लिये

अपूर्व कुमार, रुपक गुप्ता

(संयुक्त प्रबंध निदेशक)

**AMTL** 

Particulars

Place:-Noida Date:- 11th February, 2021

(अनंकेक्षित)

1862.2

(1141.12

(1141.12

(853.93

(765.49

540.00

31.03.202

अंकेक्षित

9753.5

367.1

367.1

370.90

443.1

9160.1

पताः जी-74, पृष्कर एन्क्लेव, पश्चिम विहार, नई दिल्ली-110063

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए) देखें नियम 8(1)

जैसा कि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अनुबंध तिथि 31.7.2015 द्वारा रिलायन्स एआरसं

012 ट्रस्ट के ट्रस्टी की हैसियत से कार्यरत रिलायन्स एसेट रीकन्स्ट्रक्शन कम्पनी लिमियेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावर्ल

2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 21.8.2020 जारी कर ऋणधारर

ऋणधारक तथा गारन्टर्स इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अत<sup>ै</sup>. एतदृद्वारा ऋणधारक एवं गारन्टर्स तथा आम जनता को सुचित किया जाता है कि आज 10.02.2021 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतदद्वारा सतकं किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित संपत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन संपत्तियों का किसी र्ध

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभृत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति

श्री राजीव जैन, पुत्र श्री महावीर प्रसाद जैन गई प्लॉट नं. 84, भारत नगर, न्यु फ्रैंह्स कॉलोनी, नई दिल्ली में सम्पूर्ण निर्मित क्षेत्र के (रुपए उन्तालिस करोड़ सत्तावन लाख

यु.पी. होटल्स लि.

CIN:L55101DL1961PLC017307

पंजी. कार्यालय: 1101, सूर्य किरण, 19, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110001

टेली: 011-23722596-98, फैक्स: 011-23312990,

ईमेलः clarkssuryakiran@yahoo.co.in, वेबः www.hotelclarks.com

31 दिसम्बर, 2020 को समाप्त तिमाही एवं नौ माही के लिए स्टैंडएलॉन अनंकेक्षित वित्तीय <u>परिणामों के विवरणों का सार</u>

गिरवी सम्पत्ति का संक्षिप्त विवरण

तथा गारन्टरों को उक्त सुचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सुचना में वर्णित राशि वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

तरह का व्यवसाय नीचे वर्णित राशि तथा उस पर ब्याज के लिए रिलायन्स एसेट रीकन्स्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड के चार्ज के अधीन होगा।

. श्री संजीव जैन, पुत्र श्री महावीर प्रसाद जैन 🛮 सभी भाग तथा हिस्सा। चौहदीः उत्तरः न्यू फ्रैंड्स सोसायटी, दक्षिणः ओम प्रकाश गुप्ता मात्र)

की सम्पत्ति, पूर्वः चौ. हेत राम की सम्पत्ति. पश्चिमः रोड

# पंकज पीयूष ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड

सीआईएन : L65990DL1982PLC256291 पंजीकृत कार्यालय : 314, तीसरी मंजिल, सामने प्लॉट सं. 39, आर.जी. मॉल, सेक्टर-9, रोहिणी, नई दिल्ली-110085

वेबसाइट : www.pptinvestment.in, ई-मेल : infopptinvestment@gmail.com, दूरभाष : 011-42804171, 9891442777 31 दिसम्बर, 2020 को समाप्त तिमाही तथा नौमाही के स्टैण्डएलोन वित्तीय परिणामों का सारांश

				स्टैण्डा			(रा. लाख न
क्र.सं.	विवरण						
		समाप्त तिमाही	समाप्त तिमाही	समाप्त तिमाही	समाप्त नौमाही	समाप्त नौमाही	समाप्त वर्ष
		31 दिसम्बर, 20	30 सित., 2020	31 दिसम्बर,	31 दिसम्बर, 2020	31 दिसम्बर,	31 मार्च, 2020
		( अलेखापरीक्षित )	( अलेखापरीक्षित )	2019	( अलेखापरीक्षित )	2019	( लेखापरीक्षित )
				( अलेखापरीक्षित )		( अलेखापरीक्षित )	
1.	प्रचालनों से कुल आय (निवल)	109.37	659.35	62.08	802.17	201.38	419.40
2.	कर पूर्व सामान्य गतिविधियों से निवल	19.24	22.10	59.75	81.29	(0.70)	(17.14)
	लाभ/(हानि)						
3.	अवधि हेतु कर पश्चात निवल	14.39	1.55	59.75	45.50	(0.70)	(19.49)
	लाभ/(हानि) (असाधारण मदों के पश्चात)						
4.	अवधि हेतु कुल व्यापक आय [अवधि हेतु	14.39	1.55	59.75	45.50	(0.70)	(19.49)
	लाभ/(हानि) (कर पश्चात) तथा अन्य						
	व्यापक आय (कर पश्चात) से मिलकर]						
5.	प्रदत्त इक्विटी शेयर पूँजी	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00
6.	आरक्षितियां (तुलन पत्र में प्रदर्शित	2,705.63	2,705.63	2,724.14	2,705.63	2,724.14	2,705.63
	पुनर्मूल्यांकन आरक्षितियों को छोड़कर)						
7.	आय प्रति शेयर (असाधारण मदों से पूर्व						
	एवं पश्चात) (रु. 10/- प्रत्येक के)						
	बेसिक :	3.60	0.39	14.94	11.38	(0.14)	(4.87)
	डाइल्यूटेड :	3.60	0.39	14.94	11.38	(0.14)	(4.87)

उपर्युक्त वित्तीय परिणामों की समीक्षा ऑडिट किमटी द्वारा की गयी है और 10 फरवरी, 2021 को आयोजित उनके बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित एवं अभिलेखि केया गया है। एक असंशोधित विचार जारी किया गया है और इसे उपर्युक्त परिणामों के साथ स्टॉक एक्सचेंज में दाखिल किया जा रहा है। . उपर्युक्त परिणाम कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत निर्धारित कम्पनी (भारतीय लेखांकन मानक संशोधन) नियम, 2016 द्वारा यथासंशोधित कम्पनी (भारती खांकन मानक) की मान्यता तथा मापन सिद्धान्तों एवं प्रयोज्य सीमा तक अन्य मान्यताप्राप्त लेखांकन प्रथाओं एवं नीतियों के अनुपालन में तैयार किये गये हैं। सेबी द्वारा अधिसूचना दिनांक 25 मई, 2016 द्वारा जारी सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) (संशोधन) विनियम, 2016 के अनुसार हम एतद्वारा घोषणा कर हैं कि उपर्युक्त वित्तीय परिणाम कम्पनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा क्वालिफाइड नहीं हैं।

. वर्तमान अवधि के वर्गीकरण को सुनिश्चित करने के लिए जहां आवश्यक समझा गया वहां गत अवधि के आंकड़ों को पुनर्समूहीकृत किया गया है। उपर्युक्त परिणामों का प्रारूप जैसा कि सेबी परिपत्र CIR/SFD/CMS/15/2015 दिनांक 30 नवम्बर, 2015 में निर्धारित है, को इंड एएस के अनुपालन में वांछित कम्मनिय हेतु प्रयोज्य कम्पनी अधिनियम, 2013 की इंड एएस अनुसूची III (डिवीजन-II) एवं सेबी परिपत्र दिनांक 5 जुलाई, 2016 की वांछनीयताओं के अनुपालन में संशोधित किय

. कोविड-19 महामारी से अत्यधिक परेशानी और वैश्विक गतिविधियों में अत्यधिक धीमापन हो रहा है। प्रबन्धन ने उन सम्भावित प्रभावों पर विचार किया जो आस्तियों व कवरेबिलिटी/कैरीइंग वैल्यू पर महामारी के कारण हो सकते हैं। भावी आर्थिक दशाओं के वर्तमान सूचकों के आधार पर, प्रबन्धन आस्तियों की कैरीइंग राशि के रिकवर होने की आशा करता है, हालांकि प्रबन्धन भावी आर्थिक दशाओं पर किसी तात्विक परिवर्तन की गहनता से निगरानी करना जारी रखेगा। इन अनिश्चितताओं में, भविष्य में कम्पनी ही आस्तियों पर अन्तिम प्रभाव इन वित्तीय परिणामों के अनमोदन की तिथि तक अनमानित प्रभाव से भिन्न हो सकता है।

तिथि : 10 फरवरी, 2021 विनोद कुमार बंसर स्थान : नई दिल्ली प्रबन्ध निदेशव



# विनायक पोलीकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड

(रु. लाख में

वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

स्थानः दिल्ली

तिथि: 10.2.2021

हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

कश्मीर बैंक (बी.यू. लाजपत नगर, दिल्ली के चार्ज के अधीन होगा।

पंजीकत कार्यालय : 312, नवजीवन कॉम्पलेक्स, 29, स्टेशन रोड, जयपुर-302006 ( राज. ) इंडिया। फोन : 0141-2377007 फैक्स : 0141-2378830, ई-मेल : investor@vinavakpolycon.com, वेबसाईट : www.vinavakpolycon.com CIN: L25209RJ2009PLC030620 (रु. लाखों में राशि

31 दिसम्बर, 2020 को समाप्त तिमाही/ नौमाही के लिए स्टैण्डएलॉन गैर अंकेक्षित वित्तीय परिणामों के विवरणों का सार

क्रम सं.	विवरण	समाप्त तिमाही <b>31-12-2020</b>	समाप्त नौमाही 31-12-2020	समाप्त तिमाही 31-12-2019
``'		गैर अंकेक्षित	गैर अंकेक्षित	गैर अंकेक्षित
1.	परिचालनों से कुल आय ( शुद्ध )	361.55	810.99	407.38
2.	कर के पहले की अवधि के लिए असाधारण और			
	असाधारण वस्तुओं से शुद्ध लाभ/( हानि )	1.27	-18.23	0.63
3	कर के पहले शुद्ध लाभ/( हानि ) ( असाधारण और/			
	या असाधारण वस्तुओं से बाद )	1.27	-18.23	0.63
4.				
	या असाधारण वस्तुओं से बाद )	1.42	-17.05	0.65
5.	अवधि के लिए कुल व्यापक आय एवं अन्य व्यापक			
	आय ( कर के बाद ) के लिए लाभ ⁄हानि	1.42	-17.05	0.65
6.		308.13	308.13	308.13
7.	रिज़र्व ( पूर्व लेखा वर्ष के तुलन पत्र के अनुसार			
	पूनर्मूल्यांकन रिजर्व के अतिरिक्त )	-	-	-
8.				
	( संचालन जारी रखने और बंद करने के लिए )			
	1. मूल	0.05	-0.55	0.02
	2. तरल	0.05	-0.55	0.02

टिप्पणी : ( 1 ) इन स्टेडअलोन वित्तीय परिणाम कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत निर्धारित Ind AS 34 अंतरिम वित्तीय रिपॉटिंग के रूप में इंडस्ट्रीज में निर्धारित मान्यता और माप सिद्धांन्तों के अनुसार तैयार किये गये हैं, इसके तहत जारी प्रासंगिक नियमों के साथ पढ़ें (् 2 ) उपरोक्त विवरण सेबी (् सूचीयन दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ ) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज के पास दाखिल की गई 31 दिसम्बर 2020 को समाप्त तिमाही ⁄ नौमाही के वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सार है 31 दिसम्बर, 2020 को समाप्त तिमाही / नौमाही के वित्तीय परिणामों का संपूर्ण प्रारूप बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाई (www.bseindia.com) तथा कम्पनी की वेबसाईट (www.vinayakpolycon.com) पर उपलब्ध है। बोर्ड के लिए तथा उसकी ओर सं स्थान : जयपुर विक्रम बैद ( पूर्णकालिक निदेशक एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी ) दिनांक : 11 फरवरी, 2021

> आईबीसी. 2016 के तहत ई-नीलामी बिक्री सचन आईबीसी. 2016 के तहत बिक्री सचना मैसर्स आई ए पी कम्पनी प्रा.लि. (परिसमापनाधीन)

सीआईएन : U74899DL1998PTC096187 पंजीकृत कार्यालय : (एमसीए रिकार्ड के अनुसार) : मकान ने. 353/1, निकट गोलक धाम मन्दिर, मेन रोड, बिजवासन, नई दिल्ली-110061

परिसमापक का पता : 92सी, डीडीए पॉकेट-4, मयुर विहार-1, नई दिल्ली-110091

सम्पर्क व्यक्ति : श्री तरस जैन । मोबाइल : +91-9811243806 ई-नीलामी की तिथि : 1 मार्च, 2021 माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, नई दिल्ली पीठ द्वारा आईबी-446/एनडी/2017 में आदेश सं. सीए-140/एनडी/2019 दिनांक 28.09.2020

(घोषणा 5.10.2020) के माध्यम से नियुक्त परिसमापक द्वारा परिसमापन सम्पदा का भाग निर्मित करने वाली मैसर्स आई ए पी कम्पनी प्रा.लि . (परिसमापनाधीन) को आस्तियों की बिक्री। यह बिक्री अधोहस्ताक्षरी द्वारा ई-नीलामी प्लेटफॉर्म <u>https://www.eauctions.co.in</u> के माध्यम से सम्पन

विवरण	इ-मीलामी की तिथि	आरक्षित मूल्य (रु.)	इएमडी राशि तथा दस्तावेज जमा करने की अन्तिम तिथि	संविदा वृद्धि राशि
	1 मार्च, 2021 समय : 11.30 बजे पूर्वा. से 12.30 बजे अप. (5 मिनट प्रत्येक के असीमित विस्तार सहित)	₹. 5,60,86,602/-	रु. 56,10,000/- 24 फरवरी, 2021 को 5 बजे अप. से पूर्व	₹. 1,00,000/-
लॉट 2 : संयन्त्र एवं मशीनरी तथा फर्नीचर एवं फिक्सचर, कार्यालय उपकरण, यूनिट सं. 2040 एवं 204बी, दूसरी मंजिल, पालम ट्रायंगल, पालम विहार, गुरुग्राम, हरियाणा 122017 पर स्थित एवं पड़ी हुई।		₹. 13,18,069/-	रु. 1,32,000/- 24 फरवरी, 2021 को 5 बजे अप. से पूर्व	₹. 10,000/-
लॉट 3 : विविध लेनदारों, सरकारी विभागों, अयकर विभाग आदि से प्रतिभूतियां एवं आस्ति-रिसीवेबल्स आदि	1 मार्च, 2021 समय : 3.00 बजे अप. से 4.00 बजे अप. (5 मिनट प्रत्येक के असीमित विस्तार सहित)	₹. 5,47,68,533/-	रु. 54,80,000/- 24 फरवरी, 2021 को 5 बजे अप. से पूर्व	रु. 1,00,000/−

निरीक्षण की तिथि : 15 फरवरी, 2021 से 22 फरवरी, 2021 तक 11.00 बजे पूर्वा. से 5.00 बजे अप. तक श्री तरस जैन : +91–9811243806 को

ई-नीलामी एजेंसी (लिंकस्टार) की ओर से सम्पर्क व्यक्ति : श्री दीक्षित प्रजापति, ई-मेल आईडी : adminffleauctions.co.in.

मोबाइल नं. +91-78741382371 ईएमडी जमा करने की अन्तिम तिथि : 24 फरवरी, 2021 बिक्री के नियम एवं शर्तें निम्नलिखित हैं :

1. ई-नीलामी ''जहाँ है जैसे है'', ''जो है यही है'', ''जो भी है वहीं है'' तथा ''उपचार रहित आधार'' पर की जा रही है और यह बिक्री अनुमोदिर सेवा प्रदाता मैसर्स लिंकस्टार इन्फोसिस प्रा.लि. (https://www.eauctions.co.in) के बिना किसी वारंटी एवं इंडेम्निटी के माध्यम से है।

2. परिसमापक के पास संविदाएं निर्धारित प्रारूप में (ऑनलाइन या हार्ड कॉपी) में जमा करनी हैं। सम्पूर्ण ई-नीलामी प्रक्रिया के विस्तृत नियम एवं शर्तो सहित संविदा प्रपत्र वेबसाइट https://www.eauctions.co.in या कम्पनी की वेबसाइट www.iapcorp.com से डाउनलोड किये जा सकते हैं। 3. लॉड 2 से 3 की ई–नीलामी केवल तभी संचालित होगी जब लॉट–1 के लिए कोई सफल बोलीदाता नहीं होगा।

धर्मेन्द्र कुमा

परिसमापक आई ए पी कम्पनी प्रा.लि. (परिसमापनाधीन आईबीबीआई पंजीकरण सं. : IBBI/IPA-003/IP-N000112/2017-2018/11264 | दूरभाष : +91-9973603517 तिथि : 11.02.2021 स्थान : नई दिल्ली ई-मेल : kumard36@hotmail.com, iapliquidator2020@gmail.com एस्सार पावर (झारखंड) लिमिटेड – परिसमापन में यू 3 1 10 1 डीएल 200 5 पीएल सी 2 1 1 2 7 4

द जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड

अंचल कार्यालय (उत्तर), प्लॉट नं. 132-134, सेक्टर- 44, गुड़गाँव, (हरियाणा), भारत

जीएसटीआईएन: 06AAACT6167GIZB, टेली. + 91 (0) 0124- 4715800,

फे. + 91 (0) 0124-4715800, ई: japmd.del@jkbmail.com, W: www.jkbank.net

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिये) [देखें नियम 8 (1)]

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 (2002 के 54) के अंतर्गत द जम्मू एंड्

कश्मीर बैंक लि. के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 19.02.2020 जारी कर ऋणधारकों- सह मार्टगैजरों तथा गारन्टरों जैसे

1) मै. चीप जॉन, सी/ओ 5/28-ए. 2रा तल, जंगपरा- बी, मथरा रोड, नई दिल्ली- 110014 (ऋणधारक), शाखा कार्यालय/ शो रूमः 6288, भ तल

मैन मथुरा रोड, भोगल, नई दिल्ली, द्वारा उसके पार्टनर, 2. श्री जाफर जॉन, पुत्र श्री मोहम्मद अली, निवासी: 5/28-ए, 2रा तल, जंगपुरा- बी, मथुरा रोड, नई दिल्ली- 110014 (ऋणधारक/ पार्टनर), 3. श्री बशारत जॉन, पुत्र श्री जाफर अली निवासीः 5/28-ए, 2रा तल, जंगपुरा- बी, मथुरा रोड, नई दिल्ली- 110014, (ऋणधारक/ पार्टनर), 4. श्रीमती सरवरया बेगम, पत्नी श्री जाफर अहमद जॉन, निवासी: 5/28-ए, 2रा तल, जंगपुरा- बी, मथुरा रोड, नई दिल्ली- 110014, (ऋणधारक/ पार्टनर/ मार्टगैजर) (यहां के बाद सामृहिक रूप से ऋणधारक वर्णित) को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सुचना में वर्णित राशि रु. 76,68,337.13 (रुपये छियत्तर लाख अड़सठ हजार तीन सौ सैंतीस एवं पैसे तेरह मात्र) के साथ एमसीएलआर ) (1 वर्ष) + 4% की दर से वर्तमान में 12.40%) 1.02.2020 से मासिक रेस्ट्स के साथ ब्याज तथा आगे की लागत, चार्जेज आदि

ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 10 फरवरी, 2021 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के जेतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय रू. 76.68.337.13 (रुपये छियत्तर लाख अडसट हजार तीन सौ सैंतीस एवं पैसे तरह मात्र) के साथ एमसीएलआर ) (1 वर्ष) + 4% की दर से वर्तमान में 12.40%) 1.02.2020 से मासिक रेस्टस के साथ ब्याज तथा आगे की लागत. चार्जेज आदि के लिये द जम्म एंड

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के

अचल सम्पत्ति का विवरण श्री सरवरया बेगम. पत्नी श्री जाफर अहमद जॉन के नाम में नीचे की फ्री होल्ड भूमि के आनुपातिक, अविभाजित, इन्डिवायजेबल तथा इम्पार्टिबल शेयर के साथ जंगपरा-बी. नई दिल्ली- 110024 में स्थित सम्पत्ति सं. 5/28-ए. माप 100 वर्ग यार्डस पर निर्मित सम्पर्ण दसरा तल. टैरेस के अधिकार के

# ई-नीलामी बिक्री सूचना

### परिसंपत्तियों की बिक्री

- 1. टोरी, जिला लातेहार, झारखंड में एस्सार पावर (झारखंड) लिमिटेड के निर्माणाधीन थर्मल पावर प्लाट (2x600 मेगावाट) का सम्पूर्ण प्लाट एव मशीनरी तथा अन्य चल परिसंपत्तियां।
- 2. एमएस फैब्रिकेटेड स्टील, एमएस स्क्रैप और चयनित प्लांट और मशीनरी 10,000 मीट्रिक टन तक।

ई-नीलामी, वेबपोर्टल <u>www.eauctions.co.in</u> पर 19 फरवरी, 2021 को अपराह्न 2 बजे से अपराह्न 3 बजे तक की जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए फोन नंबर +91 88285 76197 पर फोन करें या ई-मेल आईडी epjl.lq@gmail.com पर ई-मेल भेजें। विस्तृत बिक्री सूचना,

वेबसाइट: www.epjl.co.in पर अपलोड की गई है। कृते एस्सार पावर (झारखंड) लिमिटेड-परिसमापन में

प्राधिकृत अधिकारी

हजेफा फाखरी सीताबखान आईबीबीआई/आईपीए-001/आईपी-पी00031/2017-18/10115 huzefa.sitabkhan@gmail.com, epjl.lq@gmail.com दिनांक : फरवरी 12, 2021

### **ORACLE CREDIT LIMITED** Regd. Off: P-7, Green Park Extension, New Delhi-110016 CIN: L65910DL1991PLC043281 E-mail: oracle\_credit@yahoo.co.in, info@oraclecredit.co.in

Website: www.oraclecredit.co.in Phone: 011- 26167775

# **Extract of Unaudited Financial Results for the Quarter** and Nine months ended December 31, 2020

### **Particulars** Quarter Nine months Quarter ended ended 31.12.2020 31.12.2020 31.12.2019 Total Income from Operations 8.8 25.80 6.3 Net Profit / (Loss) for the period 2.54 16.54 Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/o 2.54 5.41 16.54 Extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period 4.05 12.38 1.68 Extraordinary items) Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Incom-4.05 12.38 1.68 (after tax)] 555.00 555.00 Equity Share Capital 555.00

2. Diluted Rs.0.073 Rs.0.223 Rs.0.030 The above is an extract of detailed format of Unaudited Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results is available on the website of Stock Exchange at www.bseindia.com and Company's Website at www.oraclecredit.co.in
The above Financial Results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the company at their respective

Rs.0.073

Place: New Delhi Date: 11.02.2021

. Basic

Earnings Per Share (of Rs.10/-each) (for continuing and

Meeting(s) held on 11-Feb-21

स्थान : मुम्बई

Sd/-Ashok Kumar Jain Managing Director DIN-00091646

By the Order of the Board For Oracle Credit Limited

Rs.0.223

Rs.0.030

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contants. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals adversing in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

### दूरभाष : 0120-4199200 फैक्स : 0120-4199234 ई-मेलः magnumventures@gmail.com वेबसाइट : www.magnumventures.in 31 दिसम्बर, 2021 को समाप्त तिमाही तथा नौमाही हेतु स्टैण्डएलोन अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का सारांश

				( राशि   रु.	. लाखों में
	समाप्त तिमाही		समाप्त	नौमाही	समाप्त वर्ष
31.12.2020	30.09.2020	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2019	31.03.2020
( अलेखापरीक्षित )	( अलेखापरीक्षित )	( अलेखापरीक्षित )	( अलेखापरीक्षित )	( अलेखापरीक्षित )	( लेखापरीक्षित
6202	4063	6487	10511	18916	24270
51	(142)	79	(802)	(106)	(889)
51	(142)	77	(802)	(107)	(943)
51	(142)	77	(802)	(107)	(1217)
0	0	0	0	0	(
5	(142)	77	(802)	(107)	(1217)
3760.1884	3760.1884	3760.1884	3760.1884	3760.1884	3760.1884
0.14	(0.38)	0.20	(2.13)	(0.28)	(3.24)
0.14	(0.38)	0.20	(2.13)	(0.28)	(3.24)
	( अलेखापरीक्षित ) 6202 51 51 51 0 5 3760.1884	31.12.2020     30.09.2020       (अलेखापपीक्षित)     (अलेखापपीक्षित)       6202     4063       51     (142)       51     (142)       51     (142)       51     (142)       51     (142)       3760.1884     3760.1884       3760.1884     (0.38)	31.12.2020         30.09.2020         31.12.2019           (अलंखापपीक्षित)         (अलंखापपीक्षित)         (अलंखापपीक्षित)           6202         4063         6487           51         (142)         79           51         (142)         77           51         (142)         77           0         0         0           5         (142)         77           3760.1884         3760.1884         3760.1884           0.14         (0.38)         0.20	31.12.2020   30.09.2020   31.12.2019   31.12.2020   (अलेखापपीक्षित)   79 (802)   (8	समाप्त तियाही   समाप्त नियाही   समाप्त नियाही     31.12.2020   30.09.2020   31.12.2019   31.12.2020   31.12.2019     (अलेखापरीक्षित) (अलेखापरीक्षित) (अलेखापरीक्षित) (अलेखापरीक्षित) (अलेखापरीक्षित) (अलेखापरीक्षित)   18916     6202   4063   6487   10511   18916     51   (142)   79   (802)   (106)     51   (142)   77   (802)   (107)     51   (142)   77   (802)   (107)     0   0   0   0   0     5   (142)   77   (802)   (107)     3760.1884   3760.1884   3760.1884   3760.1884   3760.1884     0.14   (0.38)   0.20   (2.13)   (0.28)

2021 को आयोजित उनकी बैठक में निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित और अभिलेखित किए गए तथा साथ ही सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा समीक्षा भी की गयी उपरोक्त सेबी (सूचीयन तथा अन्य उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंजों में दाखिल की गई 31 दिसम्बर, 2020 के समाप्त तिमाही तथा नौमाही वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सार है। 31 दिसम्बर, 2020 को समाप्त तिमाही तथा नौमाही वित्तीय परिणामों का संपूर्ण प्रारूप बीएसई तथा एनएसई की वेबसाईट क्रमशः www.bseindia.com तथा www.nseindia.com और कम्पनी की वेबसाइट www.magnumventures.ir पर उपलब्ध है।

1. 31 दिसम्बर, 2020 को समाप्त तिमाही तथा नौमाही के उपर्यक्त वित्तीय परिणामों की समीक्षा ऑडिट कमेटी द्वारा की गयी थी और उसके पश्चात 10 फरवरी

3. तिमाही के प्रारम्भ में किसी भी निवेशक की शिकायत लम्बित नहीं थी, तिमाही के दौरान कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई। 31 दिसम्बर, 2020 तक कोई शिकाय लम्बित नहीं है। निदेशक मण्डल के आदेशानसा

स्थान : नई दिल्ली तिथि : 10.02.2021

अभय जैन पर्ण कालिक निदेशक

Regd. Off.: LGF, E-8/1, Malviya Nagar, Near Geeta Bhawan Mandir, New Delhi - 110017 / Corporate Office.: 6th Floor, Plot No-19 and 20, Sector-142, Noida-201304, Uttar Pradesh Tel: 0120 4531400, Email:corporate@pkrgroup.in, Web: www.pkrgroup.in, CIN # L31401DL2011PLC271394 Unudited Standalone Financial Results for the Quarter ended and nine months | Unaudited consolidated Financial Results for the Quarter ended and nin ended 31st December, 2020 months ended 31st December, 2020 Consolidated Standalone Nine months Ended Year Ended Nine months Ended Quarter Ended Quarter Ended Year Ended Dec-19 Sep-20 Dec-20 Dec-19 Mar-20 Dec-20 Sep-20 Dec-19 Dec-20 Mar-20 (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited (Audited) (Audited) (Unaudited) (Unaudited Unaudited) Total income from operations (net) 40,748.86 52,431.68 63,607.79 | 135,315.82 | 259,672.43 | 333,342.2 43,774.90 55,574.83 63,368.57 141,244.71 258,927.99 332,443.9 Net Profit/(Loss) for the period (before tax (23,405.39) (8,100.24) 39,924.54) (51,612.12) (84,058.38) (185,580.83) (24,462.59)(9,090.66 (40,291.76) (55,892.81) (87,955.43) 189,710.05 Exceptional and / or Extra ordinary items) Net Profit/(Loss) for the period before tax (after (23,405,39) (8,100.24)(39,924.54) (51,612.12) (84,058.38) (185.580.83) (24.462.59)(9.090.66) (40.291.76) (55,892,81) (87,955,43) (189.710.05 Exceptional and/or Extra ordinary Items) Net Profit/(Loss) for the period after Tax (after (23,405,39) (51.612.12) (84.058.38) (8,100,24) 39.924.54) (24.462.59)(9.090.66 40.291.76) (55.892.81) (23,992.75) (8,185.20) (39,924.54) (52,261.70) (84,058.38) (185,776.71) (25,363.64) (8,916.58) (40,472.65) (56,807.13) (88,345.53)

ADVANCE METERING TECHNOLOGY LIMITED

exceptional and/or extra ordinary item.) Total Comprehensive income for the period Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax and other comprehensive income (after tax)] (190.813.40 Equity Share Capital 80.287.33 80.287.33 80,287.33 80,287.33 80,287.33 80.287.33 80.287.33 80.287.33 80.287.33 80.287.33 80.287.33 80.287.3 Reserves (excluding Revaluation Reserve) as show in the Audited Balance Sheet of the previous year 988.567.98 Earnings Per Share (Face value of Rs.5/- each) Notes: (1) The above financial results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meeting held on 11th February, 2021. (2) This statement has been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (Ind AS), prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013, and other recognized accounting practices and policies to the extent applicable. Beginning Agrit 1, 2017 Company has for the first time adopted Ind AS, (3) The above is an extract of the detailed format of Unaudited Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulations 3 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Unaudited Financial Results are available on the Stock Exchange website (www.bseindia.com) and on the Company's website (www.pkgrgroup.in). (4) On account of Covid-19 pandemic, the Govt. of India had imposed a complete nation-wide lockdown on March 24, 2020 leading to temporarily shut down of company's manufacturing facilities and operations. Since then the Govt. of India progressively relaxed lockdown conditions and has allowed the industry to resume its operations in a phased manner. The Company's operations and financial results for the nine months ended December 31, 2020 have been adversely impacted. The results therefore, are not comparable with those for the previous quarters. Further, the Company has and assessment to the passion said assessment for the previous recoverability and carrying value of its assets and Indiatities and operation and external sources of information for making said assessment. On the basis of said assessment the Company has considered internal and external sources of information for making said assessment. On the basis of said assessment the Company has considered internal and external sources of information for making said assessment. On the basis of said assessment the Company and othese financial results for the nine months ended December 31, 202

Chairman-cum-Managing Directo DIN-0000535

FINANCIAL EXPRESS



# RELIANCE Reliance Asset Reconstruction Co. Ltd. Branch Office: A-13/1, 6 Floor, Synergy Tower, Sector-62, Noida (U.P) 201309

POSSESSION NOTICE (for immovable properties) See Rule 8(1)

Whereas, the Authorised Officer of Reliance Asset Reconstruction Company Limited acting in its capacity as Reliance ARC 012 Trust vide Agreement dated 31.07.2015 under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a demand notice dated 21.08.2020 calling upon the borrower and guarantors to repay the amount within 60 days from the date of receipt of said notice.

The borrower and guarantors having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and guarantors and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under section 13(4) of the said Act read with rule 8 of the said Act on 10.02.2021. The borrowers and guarantors in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealing with the

property will be subject to the charge of Reliance Asset Reconstruction Company Limited for the amount and interest thereon.

Borrowers / Guarantors	Description of the properties mortgaged	Amount O/s
Sh. Rajiv Jain S/o. Sh. Mahavir     Prashad Jain     Smt. Macry, Jain W/o. Sh. Bajiy, Jain	All that piece and parcel Land and Four Storied Residential Building at Plot No. 84, Bharat Nagar, New Friends Colony, New Delhi consisting an area of 598 Sq. Yrds. Along with Complete Built Up Area, owned and mortgaged by Sh. Rajiv Jain and Sh. Sanjeev Kumar Jain. <b>Bounded by</b> North: New Friends Society, South by: Property of Om Parkash Gupta, East: Property of Ch. Het Ram, West: Road.	

Date: 10.02.2021 SD/- (Authorized Officer) Place - NOIDA Reliance Asset Reconstruction Company Limited

E Auction Sale Notice under IBC, 2016. Sale Notice under IBC, 2016

M/s I A P Company Pvt Ltd (in Liquidation) CIN: U74899DL1998PTC096187

Regd. Off (as per MCA records): House No. 353/1, Near Golak Dham Temple, Main Road, Bijwasan, New Delhi - 110061

Liquidator's Office: 92C, DDA Pocket-4, Mayur Vihar -1, New Delhi-110091 Contact Person: Mr.Taras Jain | Mobile: +91-9811243806 Date of E-auction- 1st March 2021

Sale of assets of M/s I A P Company Pvt Ltd (in Liquidation) forming part of Liquidation Estate by the liquidator appointed by the Hon'ble National Company Law Tribunal, New Delhi Bench vide order no. CA-140/ND/2019 dated 28.09.2020 (Pronounced on 05.10.2020) in IB-446/ND/2017. The sale will be done by the undersigned through e-auction platform - https://www.eauctions.co.in Date and Time Reserve Price EMD Amount & Documents Bid Incrementa

and the second s	of E- Auction	(INR)	Submission Deadline	Value
LOT 1: Composite Bid for Lot 2 to 3	1st March, 2021. Time: 11.30 AM to 12.30 PM (with unlimited extension of 5 minutes each)	Rs. 5,60,86,602/-	Rs.56,10,000/- on or before 24th February, 2021, before 5PM	Rs.1,00,000/-
LOT 2: Plant & Machineries including furniture and fixtures, office equipment situated & lying at Unit No. 203, 204A & 204B, 2nd Floor, Palam Triangle, Palam Vihar, Gurugram, Haryana 122017	1st March, 2021. Time: 1.30 PM to 2.30 PM (with unlimited extension of 5 minutes each)	Rs.13,18,069/-	Rs.1,32,000/- on or before 24th February, 2021, before 5PM	Rs.10,000/-
LOT 3: Securities & Financial Assets – receivables from Sundry Debtors, Govt. Departments, Income Tax Department etc.	1st March, 2021. Time: 3.00 PM to 4.00 PM (with unlimited extension of 5 minutes each)	Rs. 5,47,68,533/-	Rs. 54,80,000/- on or before 24th February, 2021, before 5PM	Rs.1,00,000/-

Date of Inspection: 15th February, 2021 to 22nd February, 2021 (from 11.00 A.M to 5.00 P.M) with prior intimation to Mr. Taras Jain: +91-9811243806. Contact person on behalf of E-Auction Agency (Linkstar): Mr. Dixit Prajapati, Email id-admin@eauctions.co.in,

Terms & Conditions of the sale is as under:

- E-Auction will be conducted on "AS IS WHERE IS", "AS IS WHAT IS", "WHATEVER IS BASIS" AND "WITHOUT RECOURSE BASIS" as such sale is without any kind of warranties and indemnities through approved service provider M/s Linkstar Infoys Pvt. Ltd. (https://www.eauctions.co.in)
- Bids shall be submitted to Liquidator (online or hard copy) in the format prescribed. The bid form along with detailed terms & conditions of complete E-auction process can be downloaded from the website of https://www.eauctions.co.in or company website www.iapcorp.com.
- E Auction for Lot-2 to 3 will be conducted only if there is no successful bidder for Lot-1.

Liquidator I A P Company Pvt Ltd (in Liquidation) IBBI Regn. No: IBBI/IPA-003/IP-N000112/2017-2018/11264 | Ph: +91-9973603517 Date: 11/02/2021

Email: kumard36@hotmail.com, iapliquidator2020@gmail.com Place: New Delhi

# SNS PROPERTIES AND LEASING LIMITED

Regd. Office: D2-11, Budh Vihar, Phase - I, New Delhi

CIN: L65922DL1985PLC020853, E-mail: sns.prop.ltd@gmail.com

Un-Audited Financial Results for the Quarter and nine months ended 31.12.2020

Particulars	Quarter ended 31.12.2020	Quarter ended 31.12.2019	Year to Date figures for current period ended 31.12.2020	Year to Date figures for previous period ended 31.12.2019	Year ending 31.03.2020
Total income from operations (net)	0.00	0.00	0.00	0.00	19.90
Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	-1.04	-0,45	-2.40	-2.50	-3.30
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	-1.04	-0,45	-2.40	-2.50	-3.30
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	-1.04	-0.45	-2.40	-2.50	-3.30
Equity Share Capital	99.42	99.42	99.42	99.42	99.42
Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of previous year)	5 <del>4</del>	ŧ	*	*	-79.47
Earnings Per share (before/after extraordinary items) (of Rs. 10/- each) (in Rs./-) Basic & Diluted	-0.10	-0.05	-0.24	-0.25	-0.33

1. The above is an extract of the detailed format of Un-Audited Financial Results for the guarter and nine months ended 31st December, 2020, filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the Securities and Exchange Board of India (Listing obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results for the quarter and nine months ended 31st December, 2020 is available on Company's website :www.snsind.com and also on the MSEI website : www.msei.com

For SNS Properties and Leasing Ltd.

Place: New Delhi Dated: 11.02,2021 Harwinder Kaur Director DIN:06820530

# PRIME INDUSTRIES LIMITED

Regd. & Head Office: Master Chambers, 19, Feroze Gandhi Market, Ludhiana (CIN: L15490PB1992PLC012662), Email: prime\_indust@yahoo.com, Website: www.primeindustrieslimited.com, Phone No. 0161-5043500

Un-Audited Financial Results for the Quarter and nine months ended 31.12.2020

Particulars	Quarter ended 31.12.2020	Quarter ended 31.12.2019	Year to Date figures for current period ended 31.12.2020	Year to Date figures for previous period ended 31.12.2019	Year ending 31.03.2020
Total income from operations (net)	1.34	1.45	6.99	8.73	128.32
Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	-0.29	-0.56	-0.82	2.42	7.51
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	-0.29	-0.56	-0.82	2.42	7.51
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	-0.29	-0.51	-0.81	1.92	7.52
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	9.62	-2.35	14.03	-9.53	1.49
Equity Share Capital	78.63	78.63	78.63	78.63	78.63
Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of previous year)	-	5.5	*2		1.5
Earnings Per share (before/after extraordinary items) (of Rs. 5/- each) (in Rs./-) Basic & Diluted	-0.018	-0.035	-0.051	0.122	0.480

Board of India (Listing obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results for the quarter and nine months ended 31st December, 2020 is available on Company's website :

www.primeindustrieslimited.com and also on the BSE website: www.bseindia.com.

1. The above is an extract of the detailed format of Un-Audited Financial Results for the quarter and nine months

ended 31st December, 2020, filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the Securities and Exchange

RAJINDER KUMAR SINGHANIA Managing Director DIN - 00077540

For Prime Industries Limited

Sd/-

# METRO COMMERCIAL COMPANY LTD

CIN: L51109AS1985PLC002401 Regd. Office: B. R. Chandak Market, Marwari Patty, Ward No. 6, Jorhat, Guwahati-785001, (Assam) Email: info.metrocommercialcompanylimited@gmail.com, Website: www.metrocommercialcompany.com

Extract of Statement of Unaudited Financial Results for the Quarter and nine months ended December 31, 2020

				(₹ in lakhs)
S. No	Particulars	Quarter ended 31.12.2020 (Unaudited)	Nine months ended 31.12.2020 (Unaudited)	Quarter ended 31.12.2019 (Unaudited
1 2	Total income from operations (net) Net Profit/ (Loss) for the period (before Tax,	1.73	4.41	6.78
3	Exceptional and/or Extraordinary Items) Net Profit/(Loss) for the period before tax (after	2.90	8.74	6.52
4	Exceptional and/or Extraordinary Items) Net Profit/(Loss) for the period after tax (after	2.90	8.74	6.52
5	Exceptional and/or Extraordinary Items)  Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax)	2.90	8.74	6.52
	and Other Comprehensive Income (after tax)	2.90	8.74	6.52
6	Equity Share Capital	100.00	100.00	100.00
7.	Earnings Per Share (of ₹ 10/- each) (Not annualised)	59		91710
- 1	Basic:	(0.12)	(0.43)	0.03
	Diluted:	(0.12)	(0.43)	0.03

) The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the websites of the Stock Exchange(s) and the listed entity www.namokartrade.com.

b) Financial results for the guarter and nine months ended December 31, 2020 were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company at their respective meetings held on February 11, 2021.

For and on behalf of the Board of Directors

Quarter Nine months Quarter

Date : 11.02.2021 Place : Guwahati

Vishal Kumar Sharma Whole-Time Director DIN: 07310503

**Particulars** 

ORACLE CREDIT LIMITED Regd. Off: P-7, Green Park Extension, New Delhi-110016 CIN: L65910DL1991PLC043281

E-mail: oracle credit@yahoo.co.in, info@oraclecredit.co.in Website: www.oraclecredit.co.in Phone: 011- 26167775

Extract of Unaudited Financial Results for the Quarter and Nine months ended December 31, 2020 (Rs. In lacs)

No.		ended	ended	ended
		31.12.2020 (Unaudited)	31.12.2020 (Unaudited)	31.12.2019 (Unaudited)
1.	Total Income from Operations	8.86	25.80	6.38
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	5.41	16.54	2.54
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	5.41	16.54	2.54
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	4.05	12.38	1.68
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	4.05	12.38	1.68
6.	Equity Share Capital	555.00	555.00	555.00
7.	Earnings Per Share (of Rs.10/- each) (for continuing and discontinued operations)			
	1. Basic	Rs.0.073	Rs.0.223	Rs.0.030
	2. Diluted	Rs.0.073	Rs.0.223	Rs.0.030

The above is an extract of detailed format of Unaudited Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results is available on the website of Stock Exchange at www.bseindia.com and Company's Website at www.oraclecredit.co.in . The above Financial Results were reviewed by the Audit Committee and

approved by the Board of Directors of the company at their respective

Meeting(s) held on 11-Feb-21. By the Order of the Board For Oracle Credit Limited

Place: New Delhi

Date: 11.02.2021

Dharmendra Kumar

Ashok Kumar Jain Managing Director DIN-00091646

# U. P. HOTELS LTD.

CIN: L55101DL1961PLC017307

Regd. Office: 1101, Surya Kiran, 19, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi-110 001 Tel: 011-23722596-98, Fax: 011-23312990 Email: clarkssurvakiran@vahoo.co.in, Website: www.hotelclarks.com

# EXTRACTS OF STATEMENT OF STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER & NINE MONTHS PERIOD ENDED 31<sup>ST</sup> DECEMBER, 2020

SI.	stantonas and	0	uarter ende	d	Nine mont	ths ended	Year ended
No.	Particulars	31.12.2020	30.09.2020	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2019	31.03.2020
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1	Total Income from Operations	1446.66	274.44	3379.39	1862.21	6946.91	9753.54
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and / or Extraordinary items)	136.93	(830.70)	805.04	(1,141.12)	109.08	367.15
3	Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	136.93	(830.70)	805.04	(1,141.12)	109.08	367.15
4	Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	102.47	(621.63)	606.79	(853.93)	81.20	370.90
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)]	121.50	(601.71)	629.41	(765.49)	153.24	443.11
6	Equity Share Capital	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	199		86	(8)	-	9160.17
8	Earnings Per Share (of Rs.10/- each)						
	1. Basic:	1.90	(11.51)	11.24	(15.81)	1.50	6.87
	2. Diluted:	1.90	(11.51)	11.24	(15.81)	1.50	6.87

- 1 The above results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company at their meeting held on 10" February, 2021. The same have also been subjected to Limited Review by the Statutory Auditors.
- The above is an extract of the detailed format of Standalone financial results for the Quarter and Nine Months period ended 31" December, 2020 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly and Nine Months period results are available on the website of the Stock Exchange at www.bseindia.com and on the website of the Company at www.hotelclarks.com.

APURV KUMAR RUPAK GUPTA Place: New Delhi (Joint Managing Directors) Date: 10.02.2021

KIMIA BIOSCIENCES LIMITED

the Quarter and Nine months ended December 31, 2020.

Regd. Off.: Vill. Bhondsi, Tehsil Sohna, Gurgaon-122102, Haryana E-mail: compliance.kimia@gmail.com Web: www.kimiabiosciences.com

CIN: L24239HR1993PLC032120, Tel: 011-47063600, +91 9654746544, Fax: 011-47063601/02 **Extract of Statement of Standalone Unaudited Financial Results for** 

SI. No.	72070	Standalone							
		Quarte	er Ended	Nine mo	Year ended				
	Particulars	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2019	31.03.2020			
	20071113	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)			
1	Total income from operations	3490.16	2,773.71	9868.57	8,608.02	10,725.00			
2	Net Profit for the period	116.46	8.37	674.86	217.23	122.60			
	(before tax, exceptional and/or extraordinary items)								
3	Net Profit for the period before tax	116.46	8.37	674.86	217.23	122.60			
	(after exceptional and/or extraordinary items)								
4	Net Profit for the period after tax	42.65	8.37	601.05	217.23	138.11			
	(after exceptional and/or extraordinary items)								
5	Total Comprehensive Income for the period	42.65	7.47	601.05	214.54	136.95			
	[Comprising profit/ (loss) for the period (after tax) and other								
	comprehensive income (after tax)]								
6	Paid up Equity Share Capital (Face value of Rs. 1/-(one) each)	473.13	407.94	473.13	407,94	463.54			
7	Earnings Per Share (Face value of Rs. 1/- each) (Not Annualised)					1			
	Basic in Rs.	0.09	0.03	1.27	1.07	0.32			
	12 PA 1 V 1 17 4 PA 1 1 PA 2	99/02/05	30,000,000	50,000,00	33255	19758.00%			

Diluted in Rs.

- . The above is an extract of the detailed format of quarterly financial results filed with the stock exchanges under regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirement) Regulation, 2015. The full format of the guarterly financial results is available on the website of BSE Limited and the website of the company (www.kimiabiosciences.com).
- 2. The above result was reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of directors of the Company in their respective meetings held on Thursday, February 11, 2021 and the statutory auditors of the company have carried out limited review of the same.

For KIMIA BIOSCIENCES LTD (Formerly Laurel Organics Ltd.)

0.74

1.27

0.02

CONSOLIDATED

FOR U. P. HOTELS LIMITED

(Rs. In Lakhs except FPS

Chairman & Managing Director DIN NO.: 00161786

(Rs. in Lakhs)

# **NOIDA TOLL BRIDGE COMPANY LIMITED**

Regd. Office: Toll Plaza, Mayur Vihar Link Road, New Delhi - 110 091 Tel: 0120-2516495 Fax: 0120-2516440 CIN Number: L45101DL1996PLC315772 Website: www.ntbcl.com Email: ntbcl@ntbcl.com

STANDALONE

Place: New Delhi

Date: 11.02.2021

UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2020

	B. W. L.	STANDALONE					CONSOCIDATED						
SI. No.	Particulars				Nine Mon	Months ended Year ended		Quarter ended			Nine Months ended		Year ended
NO.			30.09.2020 Unaudited	31.12.2019 Unaudited		31.12.2019 Unaudited	31.03.2020 Audited	31.12.2020 Unaudited	30.09.2020 Unaudited		31.12.2020 Unaudited	31.12.2019 Unaudited	31.03.2020 Audited
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15
1	Total Income from operations	388.11	208.36	690.67	711.01	2,024.76	2,936.88	389.69	208.39	694.24	712.77	2,033.95	2,954.22
П	Profit for the period before taxation	(986.40)	(1,140.31)	(752.40)	(3,252.47)	(2,590.62)	(3,105.09)	(973.11)	(1,129.30)	(722.88)	(3,215.36)	(2,542.06)	(3,036.91)
III	Profit for the period after tax	(986.40)	(1,140.31)	(752.40)	(3,252.47)	(2,590.62)	(3,105.09)	(973.11)	(1,129.30)	(722.88)	(3,215.36)	(2,542.06)	(3,036.91)
IV	Total Other comprehensive Income	0.42	0.48	0.05	1.26	0.15	1.43	0.01	(0.09)	(0.49)	0.01	(1.45)	0.35
٧	Total Comprehensive Income for the period	(985.98)	(1,139.83)	(752.35)	(3,251.21)	(2,590.47)	(3,103.66)	(973.10)	(1,129.39)	(723.37)	(3,215.35)	(2,543.51)	(3,036.56)
VI	Paid-up equity share capital (Face Value Rs 10)	18,619.50	18,619.50	18,619.50	18,619.50	18,619.50	18,619.50	18,619.50	18,619.50	18,619.50	18,619.50	18,619.50	18,619.50
VII	Reserve (Excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of Previous Year)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	16,723.83	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	16,617.86
VIII	Earning Per Share			8									
	Basic	(0.53)	(0.61)	(0.40)	(1.75)	(1.39)	(1.67)	(0.52)	(0.61)	(0.39)	(1.73)	(1.37)	(1.63)
	Diluted	(0.53)	(0.61)	(0.40)	(1.75)	(1.39)	(1.67)	(0.52)	(0.61)	(0.39)	(1.73)	(1.37)	(1.63)

Notes to Financial Results

- The above results have been reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at a meeting held on February 11, 2021.
- The Company has adopted IND AS 116 "Leases" effective April 1,2019, as notified by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) vide Companies (Indian Accounting Standard), Amendment Rules, 2019, using the modified retrospective method. Accordingly, comparatives for the year ended March 31, 2019 have not been retrospectively adjusted. The effect of this adoption is not material on the profit for the year and earning per share.
- The Hon'ble High Court of Allahabad had, vide its Judgement dated October 26, 2016, on a Public Interest Litigation (challenging the validity of the Concession Agreement and seeking the Concession Agreement to be quashed) has directed the Company to stop collecting the user fee holding the two specific provisions relating to levy and collection of fee to be inoperative but refused to quash the Concession Agreement. Consequently, collection of user fee from the users of the Noida-Delhi Toll Road has been suspended from October 26, 2016, pursuant to which an appeal has been filed before the Hon'ble Supreme Court of India, seeking an interim stay on the said Judgement

On November 11, 2016, the Hon'ble Supreme Court issued an interim order and, though denying the interim stay, sought assistance of CAG to verify whether the Total Cost of the Project in terms of the Concession Agreement had been recovered or not by the Company. The CAG has submitted its report to the Hon'ble Supreme Court, which at a hearing held on September 14, 2018 directed that the Report submitted by CAG be kept in

The SLP is still pending for final adjudication in the Hon'ble Supreme Court. The Company has also notified NOIDA that the Judgement of the Hon'ble Allahabad High Court, read with the interim order of the Hon'ble Supreme Court of India, constitute, a 'change in law' under the Concession Agreement and submitted a detailed proposal for modification of the Concession Agreement, so as to place the Company in substantially the same legal, commercial and economic position as it was prior to the said change in law. Since NOIDA did not act on the proposal, the Company had sent a notice of arbitration to NOIDA. The Arbitral Tribunal has been constituted and both the Company and NOIDA have submitted their claims and counter claims. Further, NOIDA had filed an application under Section 16 on the maintainability of the arbitration

proceedings which was rejected by the Arbitral Tribunal vide order dated August 10, 2018. NOIDA had filed an application in the Delhi High Court, under Section 34 of the Arbitration and Conciliation Act, 1961, challenging the Arbitral Tribunal order dated August 10, 2018, which has been disposed off by the Delhi High Court on January 31, 2019, without any relief to NOIDA.

Noida has also filed an application for directions before Hon'ble Supreme Court seeking stay on the arbitral proceedings. On April 12,2019, the Hon'ble Supreme Court directed a stay on arbitral proceedings. The Company has filed an application before the Hon'ble Supreme Court of India on Janauary 31,2020, seeking the vacation of Stay on arbitral proceeding directed by the Hon'ble Supreme Court. The matter was taken up for hearing on September 21, 2020, October 05, 2020 and November 18, 2020 on which date it was posted for January 20, 2021, on that day Court directed that it be lisited for hearing on March 16, 2021.

Based on a legal opinion and the Board of Directors' reliance on the provisions of the Concession Agreement (relating to compensation and other recourses), the Company is confident that the underlying value of the intangible and other assets are not impaired.

The Company continues to fulfil its obligations as per the Concession Agreement including maintenance of Project Assets. The Company has received the assessment order from Income Tax Department on December 27,2019 u/s 143(3) of the Income Tax Act, 1961 for the Assessment Year 2016-17 and 2017-18 wherein a demand amounting

- Rs.357 crores and Rs 383.48 crores has been raised based on the historical dispute with the Tax Department which is primarily on account of addition of arrears of designated returns to be recovered in future, valuation of land and other recoveries. The Company has filed an appeal with the first level Appellate Authority. During previous year, the Company has received an order from CIT(A) on April 25, 2018 and pursuant to the CIT (A) order, the AO has also passed consequential orders in respect of AYs 2006-07 to 2014-15, giving effect to
- the CIT (A)'s appellate orders and has enhanced the tax demand by Rs. 10,893.30 crores. The enhancement of the demand was primarily on account of valuation of land. The Company has filed an appeal along with the stay application with Income Tax Appellate Tribunal (ITAT). The matter was heard by ITAT on December 19, 2018, January 2, 2019 and at the last hearing on February 6, 2019, the ITAT, based on the NCLAT order dated October 15, 2018, granting a moratorium on all creditors actions against IL&FS as well as of its group companies including NTBCL, adjourned the matter sine die, with directions to maintain status quo. During November 2018 the CIT(A), NOIDA, passed a penalty order for A.Y. 2006-07 to 2014-15, based on which the Assessing Officer Delhi imposed a penalty amounting to Rs. 10,893.30 crores during December 2018. The Company has filed an appeal, along with a stay application with ITAT on January 11, 2019. The matter was heard by the ITAT on March 29, 2019 and May 3, 2019, which adjourned the matter sine die, with directions to
- In terms of the affidavit filed by the Ministry of Corporate Affairs with the Hob'ble National Company Law Appellate Tribunal (NCLAT) on May 21,2019, the cut-off date of October 15,2018 ("Cut-off date") was proposed. The Hon'ble NCLAT vide its Order dated March 12, 2020, has approved the revised Resolution Framework submitted by New Board along with its amendments. In the said order, Hon'ble NCLAT has also approved October 15. 2018 as the Cut Off date for initiation of resolution process of the Company. Accordingly, the Company has not accured any interest on all its loans and borrowings with effect from October 15,2018 ("Cut-off date").
- On September 28, 2018, a writ of demand was served by NOIDA on the Company for an amount of Rs 3.69 crores in relation to revenue from advertising on the NOIDA side of DND Flyway. The Company has requested NOIDA to keep the writ of demand in abeyance since the matter has been referred to Arbitration by NOIDA and further no action can be taken against the Company due to the moratorium granted in view of NCLAT order dated During December 2018 and April 2019, the Company has received an additional demand of Rs.2.34 crores and Rs 2.42 crores towards arrears of license fee. The Company has requested NOIDA to keep demand in
- abeyance since the matter has been referred to Arbitration by NOIDA. The novel coronavirus (COVID-19) outbreak which was declared as a global pandemic by World Health Organization on March 11, 2020, the Government of India, followed by Government of NCT Delhi and Government of Uttar Pradesh, have, since March 16, 2020, been issuing various measures/directions/guidelines/orders to all commercial and industrial establishments and to impose "lock-down" and curfews and preventing inter-state
- and intra-state travel and requiring offices to be closed. As a result of the complete nationwide lockdown initially imposed from March 25, 2021 for 21 days and extended twice till 31st May 2020 and the gradual re-opening of limited activities in a calibrated manner in areas outside containment zones, there is a impact on the Revenue from operations during the Nine months ended December 31, 2020 (Space for Advertisement and the Rental Income from Office Space) owing to the restrictions and consequential waivers. Although the Company continues to exhibit reslience amind these uncertain times, the management believes that considering the Company's historical performance and liquidity, the Company will be able to mitigate the risks associated with COVID-19. The Company will however continue to closely monitor any changes to the future economic conditions that may have impact on its business and financial position.
- The Company had only one business segment and therefore reporting of segment wise information is not applicable. Previous period figures have been regrouped / reclassified wherever necessary.
- 10 The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirement ) Regulation 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the websites of the Company, National Stock Exchange of India Limited and BSE Limited at www.ntbcl.com, www.nseindia.com and www.bseindia.com respectively.

New Delhi

Place : Mumbai For and on behalf of the Board of Directors Date: February 11, 2021

financialexp.epap.in

Place: Ludhiana

Dated: 11.02.2021

